



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2360]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2012/अग्रहायण 16, 1934

No. 2360]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2012/AGRAHAYANA 16, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2860(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1512(अ), तारीख 6 जुलाई, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 245.650 कि.मी. से 350.000 कि.मी. (रीवा-कटनी-जबलपुर सेक्शन) तक के भू-खंड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 11 अगस्त, 2012, को "दैनिक भास्कर" और तारीख 10 अगस्त, 2012 को "दि हितवाद" में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के कि.मी. 245.650 से कि.मी 350.000 तक (रीवा-कटनी-जबलपुर सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण								
क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक / तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्ति के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सतना	1. अमरपाटन	1. केमार	163/2	निजी	गैर कृषि	0.025	प्रियंका सिंह पुत्री यू. व्ही सिंह पता नि. सिविललाइन रीवा भूमिस्वामी
				637	निजी	सिंचित/ गैर कृषि	0.005	कौशिल्यादेवी पत्नी मेवालाल जाति कुर्मी पता सा. केमार भूमिस्वामी
				636/3	निजी	असिंचित	0.105	अयोध्या प्रसाद पि. रामदास जाति ब्रा. पता सा. केमार भूमिस्वामी
				635/3	निजी	असिंचित	0.044	अयोध्या प्रसाद पि. रामदास जाति ब्रा. पता सा. केमार भूमिस्वामी
				170	निजी	असिंचित	0.009	प्रदीप सिंह पिता रामकृपाल सिंह जाति कुर्मी पता सा. केमार भूमिस्वामी
				141/1177/1	निजी	असिंचित	0.080	बाबूलाल पि. रामकृपाल सिंह जाति कुर्मी पता सा. केमार भूमि स्वामी
				141/1177/2	निजी	असिंचित	0.007	श्रीमती हाजिन रिहाना बेगम अंसारी पति हाजी अब्दुल रहमान अंसारी जाति मुसलमान पता सा. बाणसागर कालोनी रीवा भूमि स्वामी
			2. बेला	776	निजी	सिंचित	0.001	प्रदीप सिंह पिता रामकृपाल सिंह जाति कुर्मी सा. बेला भूमिस्वामी
				789	निजी	असिंचित	0.010	दुइजी बेवा शम्भू रामराज वजिय पिता शम्भू जाति मुडहा सा. देह भूमिस्वामी
				790	निजी	बाग	0.051	बेवा राजमणि शशीकान्त पिता राजमणि व राममणि रामशंकर पिता अयोध्या प्रसाद व बेवा अयोध्या प्रसाद जाति ब्रा.सा. बडहरी भूमिस्वामी
				870	निजी	असिंचित	0.028	रामसुख पिता भगवानदीन सिंहजाति कुर्मी सा. देह भूमिस्वामी
				971	निजी	असिंचित	0.007	मोलई पिता वेंशरूप सिंह जाति कुर्मी सा.देह भूमिस्वामी
				972/2	निजी	असिंचित	0.049	मोलई पि. वेंशरूप सिंह जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी
				164/1	निजी	पड़ती	0.001	अशोक कुमार दीपक कुमार पिता गुलाब चन्द जाति अग्रवाल सा. गुडहाई बाजार रीवा तह. हुजूर रीवा भूमिस्वामी
				164/2	निजी	पड़ती	0.001	रामनारायण पिता गुलाबचन्द्र जाति अग्रवाल सा. गुडहाई बाजार भूमिस्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				151/1/च	निजी	बाग	0.012	रामविश्वास पि. बसंतलाल सिंह जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी
				148	निजी	असिंचित	0.010	रईश कुमार पिता चूड़ामणि जाति ब्रा. सा. कोठार भूमिस्वामी
			3. रुहिया	443	निजी	सिंचित/ गैर कृषि	0.010	कुसुम सिंह पुत्री जमुना सिंह जाति बघेल पता सा. देह भूमिस्वामी
				41/1/क	निजी	असिंचित/ गैर कृषि	0.020	ईश्वरदीन तनय गैबी जाति कोटवार पता सा. देह भूमिस्वामी
				41/2	निजी	गैर कृषि	0.020	श्रीमती ऊषा चेलानी पत्नी राजकुमार चेलानी जाति चेलानी पता सा. शॉस्त्री नगर रोवा तह. हुजूर जिला रोवा भूमि स्वामी
				168/599/5/ख	निजी	गैर कृषि	0.010	मदन पि. काशी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी
				168/1	शासकीय	चरनोई/ आबादी	0.080	मध्यप्रदेश शासन
				168/12	निजी	असिंचित/ मेड़	0.270	कच्छेदी लाल पि. मंगल जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी
			4. शाह कोठार	30	निजी	मेड़	0.005	नंदनी प्रसाद पि. श्यामलाल जाति ब्रा. सा. देह भूमिस्वामी
			5. खुटहा	985/1	शासकीय	आबादी	0.040	म.प्र. शासन
				624/1	निजी	बाग/ गैर कृषि	0.020	शक्रेश कपूर राजन कपूर पी.के. एल. कपूर जाति कपूर सा. आकृति टोंकीज रोवा भूमिस्वामी
				688/1		असिंचित	0.010	लक्ष्मीनारायण पिता तारा प्रसाद जाति ब्रा. सा. देह भूमिस्वामी
				688/2	निजी	असिंचित	0.010	रामलखन पिता ताराप्रसाद जाति ब्रा. सा. देह भूमिस्वामी
				688/3		असिंचित	0.010	श्रीकांत पिता लक्ष्मीनारायण जाति ब्रा. सा. देह भूमिस्वामी
				544/3	निजी	असिंचित	0.050	नीलेश पि. गोकुल प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी
			6. विरसिंहपुर	9/1	निजी	सिंचित	0.010	राजेश पि. लवकुश जाति ब्रा. पता सा. महुडर भूमि स्वामी
				9/2	निजी	असिंचित	0.010	शोभनाथ राजेवरी विजय पि. रामनरेश पवन नारायण पि. तेजभान मु. नीलम पत्नी तेजभान जाति ब्रा. पता सा. महुडर भूमि स्वामी
				9/3	निजी	असिंचित	0.020	मुनियोंदेवी पत्नी रामनिरंजन जाति ब्रा. पता सा. त्योधरा भूमि स्वामी
				3/2/ख	शासकीय	रास्ता	0.010	म.प्र. शासन
				3/2/क	निजी	असिंचित/ पार	0.200	मोहनलाल रामशरण शिवप्रसाद पिता बुद्धसेन जाति चमार पता सा. खुटहा भूमि स्वामी
			7. मौहारी कटरा	473	शासकीय	रास्ता	0.010	म.प्र. शासन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				91/1	निजी	मेड़	0.020	रमोल्ला तनय रामदास जाति चमार पता सा. देऊ भूमि स्वामी
				90/1/क	निजी	असिंचित	0.230	रमोल्ला तनय रामदास जाति चमार पता सा. देऊ भूमि स्वामी
				89/1/क	निजी	असिंचित	0.060	रमोल्ला तनय रामदास जाति चमार पता सा. देऊ भूमि स्वामी
			8. उमरी शिवराजी	1103	निजी	असिंचित	0.070	ईश्वरदीन अदेनी पिता ललवा सा. पाल जाति कोल भूमिस्वामी
				1104	शासकीय	का. का.	0.004	मध्यप्रदेश शासन
				1105/4	निजी	असिंचित	0.136	भोलाप्रसाद पिता गनपत जाति कोल सा. पाल हालमुकाम रजहा तह. रामपुर बघेलान भूमिस्वामी
				827/1/ख	निजी	पार	0.010	रामाधर पिता स्वामीदीन जाति पटेल पता सा. देह भूमि स्वामी
				827/1/ग	निजी	असिंचित	0.020	भगवानदीन पिता स्वामीदीन सा. देह जाति पटेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
			11. बछरा पैपखार	84/1/ख	निजी	सिंचित/गैर कृषि	0.014	प्रेमा सिंह पति रणजीत सिंह जाति बघेल सा. त्योंधरी भूमिस्वामी
				66/1	निजी	असिंचित/गैर कृषि	0.037	बाबूलाल मंगलदीन तनय रामगरीब जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी
				53/2/ख	शासकीय	आबादी	0.070	म.प्र. शासन
			13. हरदी पैपखार	193/198	निजी	मेड़	0.020	कुँवर दीपनारायण सिंह वल्द बृजनरेश सिंह जाति परिहार पता सा. करही भूमि स्वामी
			14. बारीकला	38/1	निजी	असिंचित	0.020	मु. श्यामवती बेवा ज्ञानीसिंह, वेदना, शकुन्ता, रंजना, किरण पुत्री ज्ञानीसिंह जाति कुर्मवंशी पता सा. बारी भूमि स्वामी
			16. सरबका	409/1	निजी	असिंचित	0.004	मु. लीलावती बेवा रामकरण मनोज मुन्ना पिता रामकरण पुष्पा पुत्री रामकरण जाति ब्रा. सा. सरबका भूमिस्वामी
				410	निजी	पार	0.002	मु. लीलावती बेवा रामकरण मनोज मुन्ना पिता रामकरण पुष्पा पुत्री रामकरण जाति ब्रा. सा. सरबका भूमिस्वामी
			17. करही	442/1/क	शासकीय	कन्जी हाऊस	0.080	म.प्र. शासन
				442/3	शासकीय	सड़क	0.012	म.प्र. शासन
				442/1/ख	निजी	सिंचित/गैर कृषि	0.032	भगवत प्रसाद मोहन लालजी राजेन्द्र प्रसाद पि. कालू दाही बेवा कालू जाति सोनी पता सा. देह भूमि स्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				302/1/क	निजी	गैर कृषि	0.010	सरिता सिंह पत्नी स्व. श्री प्रदीप नारायण सिंह राकेश सिंह दीपनारायण सिंह रावेन्द्र सिंह मनोज सिंह वल्द बृजनरेश सिंह हि. बराबर जाति परिहार पता सा. करही भूमि स्वामी
				405/1/ठ	निजी	असिंचित/ गैर कृषि	0.060	मु. शान्ती बेवा भगवानदीन शम्भू प्रसाद बाबूलाल वल्द भगवानदीन सरमनिया गेंदिया पुत्री भगवानदीन जाति कुम्हार पता सा. करही भूमि स्वामी
			18. ककरा	259/1/ख	निजी	गैर कृषि	0.010	रामनरेश पि. रामकृपाल जाति लोधी पता सा. रैकवार भूमि स्वामी
				257	निजी	मेड़	0.006	रामगोपाल पिता परागू जाति कुर्मी सा. रैकवार भूमिस्वामी
				1314/1480	निजी	सिंचित	0.180	शुदर्शन पि. बंदी जाति कुर्मी पता सा. ककरा भूमि स्वामी
			20. पडहा	100	शासकीय	नाला	0.010	म.प्र. शासन
			21. परसवाही	545/1	निजी	बाग	0.050	लक्ष्मी पुत्री रामप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. परसवाही भूमि स्वामी
				545/2	निजी	बाग	0.050	इन्दू पुत्री रामप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी
				160	शासकीय	बंजर	0.049	मध्यप्रदेश शासन
				384	निजी	सिंचित/ गैर कृषि	0.010	यज्ञनारायण तनय रघुवीर जाति ब्रा. पता सा. देह भूमिस्वामी
				308	निजी	सिंचित	0.005	शारदा पिता जगदेव जाति काछी पता सा. देह भूमिस्वामी
			23. बरैह बडा	1115	निजी	असिंचित	0.024	रामस्वरूप पिता घासिल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी
			24. बरैह अकटा	7/3/क	निजी	असिंचित	0.040	इन्द्रमणिकुमार शिवकुमार मिथलेशकुमार पि. सूरत प्रसाद जाति कायस्थ पता सा. लालपुर भूमिस्वामी
				8/1	निजी	तालाब मेड़	0.011	रमाकांत उमाकान्त शिवकांत पिता रामकिशोर जाति श्रीवास्तव पता सा. लालपुर भूमिस्वामी
			25. लालपुर	681/2	निजी	मेड़	0.010	शिवकुमार पिता रामदुलारे जाति कुर्मी पता सा. देह भूमिस्वामी
				706/1	निजी	असिंचित	0.040	मुन्ना तनय विशेषर जाति कुर्मी पता सा. देह भूमिस्वामी
				718/2/ग	निजी	असिंचित	0.060	काशी प्रसाद पिता रामचन्द्र सा. देह जाति कुर्मी भूमिस्वामी
				718/2/क	निजी	असिंचित	0.350	रामसुजान पिता अकाली जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी
				737	निजी	असिंचित/ मेड़	0.060	श्रीराम जानकी धार्मिक संस्था ट्रस्ट पता पुरानी लंका चित्रकूट सतना भूमिस्वामी

4543 JI/12-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			26. नादन टोला	1312	निजी	पार	0.002	छोटेलाल सिंह पिता गजाधर सिंह जाति पता सा. नादनटोला भूमि स्वामी
				1232/1	निजी	मेड़	0.003	लख्खू वल्द छत्तधारी जाति महापात्र पता सा. अमरपाटन भूमिस्वामी
				1202/1	निजी	मेड़	0.030	जनार्दन प्रसाद पि. लक्ष्मी प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. अमरपाटन भूमि स्वामी
				1146/1/ख/2/क	निजी	मेड़	0.051	मो. शाबिर तनय बहोरा जाति मुसलमान पता सा. अमरपाटन भूमि स्वामी
				1146/1/ख/2/ख	निजी	मेड़		शेखछोटे पि. बहोरा जाति मुसलमान पता सा. अमरपाटन भूमि स्वामी
				1146/1/ख/2/ग	निजी	मेड़		शेखवाहिद पि. बहोरा जाति मुसलमान पता सा. अमरपाटन भूमि स्वामी
				1150/4	निजी	मेड़	0.030	राजेन्द्र प्रसाद पि. सुन्दर लाल जाति बढई पता सा. अमरपाटन भूमिस्वामी
				991	निजी	सिंचित	0.004	पूलमता बेवा गोपाल सिंह, प्रहलाद सिंह, महिपाल सिंह, पि. गोपाल सिंह कलावती बेवा शिवपाल सिंह सनी पि. शिवपाल सिंह शिवदयाल सिंह, शिवमंगल सिंह शिव प्रताप सिंह शिवमोहन सिंह पि. महावीर सिंह मु. धनवन्ती बेवा बिहारीलाल सिंह मु. चन्द्रवती बेवा पदमनारायण सिंह, अरुणेन्द्र सिंह करुणेन्द्र सिंह पि. पदमनारायण सिंह कमलनारायण सिंह सूर्यनारायण सिंह देवेन्द्र सिंह पिता बिहारीलाल सिंह, शिवराम सिंह पि. गजाधर सिंह गुलाब सिंह श्यामसुन्दर सिंह पि. रामपाल जाति ठाकुर पता सा. देह भूमि स्वामी सिंह मु. लीलादेवी पत्नी रामपाल सिंह, शिवचरण सिंह, पि. राजभान सिंह हि. 1/2 तेजभान सिंह छोटेलाल सिंह विजय बहादुर सिंह पि. जवर सिंह जाति ठाकुर पता सा. नादनटोला तह. अमरपाटन जिला सतना भूमिस्वामी

[फा. सं. भाराराप्रा/प.क्रिई/जबलपुर/3डी/अमरपाटन/2012]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2012

S.O. 2860(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number 1512 (E) dated 06th July 2012, in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub – section (ii) issued under sub – section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning, etc), maintenance, management and operation of National Highways No 7 the stretch of land from Km 245.650 to Km 350.000 (Rewa-Katni- Jabalpur Section) in Satna district in the State of Madhya Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” dated the 11th August 2012 and “The Hitvada” dated 10th August 2012; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 245.650 to Km 350.000 (Rewa - Katni - Jabalpur section) on the National Highway No 7 in the State of Madhya Pradesh								
Serial number	Name of the district	Name of the taluka/ tehsil	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land Owner / Interested Person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Satna	1. Amarpatan	(1) Kemaar	163 / 2	Private	Non Agriculture	0.025	Priyanka Singh D/o U.V. Singh R/o Civil Line Rewa Land Owner
				637	Private	Irrigated / Non Agriculture	0.005	Kaushilyadevi W/o Mevalal Caste Kurmi R/o Kemaar Land Owner
				636 / 3	Private	Unirrigated	0.105	Ayodhya Prasad Father Ramdas Caste Brahmin R/o Kemaar Land Owner
				635 / 3	Private	Unirrigated	0.044	Ayodhya Prasad Father Ramdas Caste Brahmin R/o Kemaar Land Owner
				170	Private	Unirrigated	0.009	Pradeep Singh Father Ramkripal Singh Caste Kurm. R/o Kemaar Land Owner
				141 / 1177 / 1	Private	Unirrigated	0.080	Babulal Father Ramkripal Singh Caste Kurmi R/o Kemaar Land Owner
				141 / 1177 / 2	Private	Unirrigated	0.007	Smt. Hajin Rihana Begam Ansari W/o Haji Abdul Rahman Ansari Caste Musalman R/o Bansagar Colony Rewa Land Owner
			(2) Bela	776	Private	Irrigated	0.001	Pradeep Singh Father Ramkripal Singh Caste Kurm. R/o Bela Land Owner
				789	Private	Unirrigated	0.010	Duiji Widow Shambhu Ramraj Vajjiya Father Shambhu Caste Mudhaa R/o Bela Land Owner
				790	Private	Gardan	0.051	Widow Rajmani Shashikant Father Rajmani & Rammani Ramshankar Father Ayodhya Prasad & Widow Ayodhya Prasad Caste Brahmin R/o Badhari Land Owner
				870	Private	Unirrigated	0.028	Ramsukh Father Bhagwandeem Singh Kurmi R/o Bela Land Owner
				971	Private	Unirrigated	0.007	Molai Father Vanshroop Singh Caste Kurmi R/o Bela Land Owner
				972 / 2	Private	Unirrigated	0.049	Molai Father Vanshroop Singh Caste Kurmi R/o Bela Land Owner
				164 / 1	Private	Uncultivated	0.001	Ashok Kumar Deepak Kumar Father Gulab Chand Caste Agrawal R/o Gudhai Bazar Rewa Tehsil Huzur Rewa Land Owner
				164 / 2	Private	Uncultivated	0.001	Ramnarayan Father Gulabchandra Agrawal R/o Gudhai Bazar Land Owner
				151 / 1 / क -	Private	Gardan	0.012	Ramvishwas Father Basantlal Singh Caste Kurmi R/o Bela Land Owner
				148	Private	Unirrigated	0.010	Raish Kumar Father Chudamani Caste Brahmin R/o Kothar Land Owner
			(3) Ruhiya	443	Private	Irrigated / Non Agriculture	0.010	Kusum Singh D/o Jamuna Singh Caste Baghel R/o Ruhiya Land Owner
				41 / 1 / क	Private	Unirrigated / Non Agriculture	0.020	Ishwardeen Father Gaibi Caste Kotwar R/o Ruhiya Land Owner
				41 / 2	Private	Non Agriculture	0.020	Smt. Usha Chelani W/o Rajkumar Chelani Caste Chelani R/o Shastri Nagar Rewa Tehsil Huzur District Rewa Land Owner
				168 / 599 / 5 / ख	Private	Non Agriculture	0.010	Madan Father Kashi Prasad Caste Brahmin R/o Ruhiya Land Owner
				168 / 1	Govt.	Charnoi / Aabadi	0.080	M.P. Govt.
				168 / 12	Private	Unirrigated/ Bund	0.270	Kanchhedi Lal Father Mangal Caste Chamar R/o Ruhiya Land Owner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(4) Shah Kothaar	30	Private	Bund	0.005	Nandani Prasad Father Shyamlal Caste Brahmin R/o Shah Kothaar Land Owner
			(5) Khutha	985 / 1	Govt.	Aabadi	0.040	M.P. Govt.
				624 / 1	Private	Gardan / Non Agriculture	0.020	Rakesh Kapoor Rajan Kapoor P.K.L. Kapoor Caste Kapoor R/o Akriti Talkies Rewa Land Owner
				688 / 1	Private	Unirrigated	0.010	Laxminarayan Father Tara Prasad Caste Brahmin R/o Khutha Land Owner
				688 / 2		Unirrigated	0.010	Ramlakhan Father Taraprasad Caste Brahmin R/o Khutha Land Owner
				688 / 3		Unirrigated	0.010	Shrikant Father Laxminarayan Caste Brahmin R/o Khutha Land Owner
				544 / 3	Private	Unirrigated	0.050	Neelesh Father Gokul Prasad Caste Brahmin R/o Khutha Land Owner
			(6) Virsinghpur	9 / 1	Private	Irrigated	0.010	Rajesh Father Lavkush Caste Brahmin R/o Mahudar Land Owner
				9 / 2	Private	Unirrigated	0.010	Shobnath Rajeshwari Vijay Father Ramnaresh Pawan Narayan Father Tejghan Mu. Neelam W/o Tejghan Caste Brahmin R/o Mahudar Land Owner
				9 / 3	Private	Unirrigated	0.020	Muniyadevi W/o Ramniranjan Caste Brahmin R/o Tyodhara Land Owner
				3 / 2 / ख	Govt.	Road	0.010	M.P. Govt.
				3 / 2 / क	Private	Unirrigated/ Paar	0.200	Mohanlal Ramsharan Shivprasad Father Buddhasen Caste Chamar R/o Khutha Land Owner
			(7) Mohari Katraa	473	Govt.	Road	0.010	M.P. Govt.
				91 / 1	Private	Bund	0.020	Ramolla Father Ramdas Caste Chamar R/o Deu Land Owner
				90 / 1 / क	Private	Unirrigated	0.230	Ramolla Father Ramdas Caste Chamar R/o Deu Land Owner
				89 / 1 / क	Private	Unirrigated	0.060	Ramolla Father Ramdas Caste Chamar R/o Deu Land Owner
			(8) Umri Shivrapi	1103	Private	Unirrigated	0.070	Ishwardeen Adeni Father Lalwa R/o Paal Caste Kol Land Owner
				1104	Govt.	Ka.Ka.	0.004	M.P. Govt.
				1105 / 4	Private	Unirrigated	0.136	Bholaprasad Father Ganpat Caste Kol R/o Paal Current Address Razhaa Tehsil Rampur Baghelaan Land Owner
				827 / 1 / ख	Private	Paar	0.010	Ramdhar Father Swamideen Caste Patel R/o Umri Shivrapi
				827 / 1 / ग	Private	Unirrigated	0.020	Bhagwandeem Father Swamideen R/o Umri Shivrapi Caste Patel Land Owner
			(11) Bachhara Paipkhar	84 / 1 / ख	Private	Irrigated / Non Agriculture	0.014	Prema Singh W/o Ranjeet Singh Caste Baghel R/o Tyaudhari Land Owner
				66 / 1	Private	Unirrigated / Non Agriculture	0.037	Babulal Mangaldeen Father Ramgareeb Caste Chamar R/o Bachraa Paipkhar Land Owner
				53 / 2 / ख	Govt.	Aabadi	0.070	M.P. Govt.
			(13) Hardi Paipkhar	193 / 198	Private	Bund	0.020	Kunwar Deepnarayan Singh S/o Brijnareish Singh Caste Parihar R/o Karhee Land Owner
			(14) Baarikala	38 / 1	Private	Unirrigated	0.020	Mu. Shyamwati Widow Gyani Singh, Vandana, Shakuntala, Ranjana, Kiran D/o Gyani Singh Caste Kurmivanshi R/o Baari Land Owner
			(16) Sarbaka	409 / 1	Private	Unirrigated	0.004	Mu. Leelawati Widow Ramkaran Manoj Munna Ramkaran Pushpa D/o Ramkaran Caste Brahmin R/o Sarbaka Land Owner

4543 GI/12-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				410	Private	Paar	0.002	Mu. Leelawati Widow Ramkaran Manoj Munna Ramkaran Pushpa D/o Ramkaran Caste Brahmin R/o Sarbaka Land Owner
			(17) Karhee	442 / 1 / क	Govt.	Kanji House	0.080	M.P. Govt.
				442 / 3	Govt.	Road	0.012	M.P. Govt.
				442 / 1 / ख	Private	Irrigated / Non Agriculture	0.032	Bhagwat Prasad Mohan Lalji Rajendra Prasad Father Kalu Dahi Widow Kalu Caste Soni R/o Karhee Land Owner
				302 / 1 / क	Private	Non Agriculture	0.010	Sarita Singh W/o Late Shri Pradeep Narayan Singh Rakesh Singh Deepnarayan Singh Ravendra Singh Manoj Singh S/o Brijnareish Singh Pr-t Equle Caste Parihar R/o Karhee Land Owner
				405 / 1 / ठ	Private	Unirrigated / Non Agriculture	0.060	Mu. Shanti Widow Bhagwandeem Shambhu Prasad Babulal S/o Bhagwandeem Sarmaniya Gendiya D/o Bhagwandeem Caste Kumhar R/o Karhee Land Owner
			(18) Kakraa	259 / 1 / ख	Private	Non Agriculture	0.010	Ramnareish Father Ramkripal Caste Lodhi R/o Raikwar Land Owner
				257	Private	Bund	0.006	Ramgopal Father Paragu Caste Kurmi R/o Raikwar Land Owner
				1314 / 1480	Private	Irrigated	0.180	Shudarshan Father Badri Caste Kurmi R/o Kakraa Land Owner
			(20) Parha	100	Govt.	Nala	0.010	M.P. Govt.
			(21) Paraswahi	545 / 1	Private	Gardan	0.050	Laxmi D/o Ramprasad Caste Brahmin R/o Paraswahi Land Owner
				545 / 2	Private	Gardan	0.050	Indu D/o Ramprasad Caste Brahmin R/o Paraswahi Land Owner
				160	Govt.	Barren Land	0.049	M.P. Govt.
				384	Private	Irrigated / Non Agriculture	0.010	Yagyanarayan Father Raghuveer Caste Brahmin R/o Paraswahi Land Owner
				308	Private	Irrigated	0.005	Sharda Father Jagdev Caste Kachhi R/o Paraswahi Land Owner
			(23) Barreh Bada	1115	Private	Unirrigated	0.024	Ramswaroop Father Ghasil Caste Patel R/o Barreh Bada Land Owner
			(24) Barreh Akthaa	7 / 3 / क	Private	Unirrigated	0.040	Indramani Kumar Shivkumar Mithlesh Kumar Father Surat Prasad Caste Kayasth R/o Lalpur Land Owner
				8 / 1	Private	Pond Bund	0.011	Ramakant Umakant Shivkant Father Ramkishore Caste Shrivastav R/o Lalpur Land Owner
			(25) Laalpur	681 / 2	Private	Bund	0.010	Shivkumar Father Ramdulare Caste Kurmi R/o Lalpur Land Owner
				706 / 1	Private	Unirrigated	0.040	Munna Father Vishesar Caste Kurmi R/o Lalpur Land Owner
				718 / 2 / ग	Private	Unirrigated	0.060	Kashi Prasad Father Ramchandra R/o Lalpur Caste Kurmi Land Owner
				718 / 2 / क	Private	Unirrigated	0.350	Ramsujan Father Akali Caste Kurmi R/o Lalpur Land Owner
				737	Private	Unirrigated/ Bund	0.060	Shriram Janki Cheritable Trust R/o Purani Lanka Chitrakoot Satna Land Owner
			(26) Nadantolaa	1312	Private	Paar	0.002	Chhotelal Singh Father Gajadhar Singh Caste R/o Nadantola Land Owner
				1232 / 1	Private	Bund	0.003	Lallu Father Chhattdhari Caste Mahapatra R/o Amarpatan Land Owner
				1202 / 1	Private	Bund	0.030	Janardan Prasad Father Laxmi Caste Brahmin R/o Amarpatan Land Owner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1146 / 1 / ख / 2 / क	Private	Bund	0.051	Mo. Shabir Father Bahora Caste Musalman R/o Amarpatan Land Owner
				1146 / 1 / ख / 2 / ख	Private	Bund		Shekhchhote Father Bahora Caste Musalman R/o Amarpatan Land Owner
				1146 / 1 / ख / 2 / ग	Private	Bund		Shekhwahid Father Bahora Caste Musalman R/o Amarpatan Land Owner
				1150 / 4	Private	Bund	0.030	Rajendra Prasad Father Sunder Lal Caste Badhai R/o Amarpatan Land Owner
				991	Private	Irrigated	0.004	Phoolmati Widow Gopal Singh, Prahlad Singh, Mahipal Singh, Father Gopal Singh Kalawati Widow Shivpal Singh Rani Father Shivpal Singh Shivdayal Singh, Shivmangal Singh Shiv Pratap Singh Shivmohan Singh Father Mahaveer Singh Mu. Dhanwanti Widow Biharilal Singh Mu. Chandrawati Widow Padamnarayan Singh, Arunendra Singh Karunendra Singh Father Padamnarayan Singh Kamalnayan Singh Suryanarayan Singh Devendra Singh Father Biharilal Singh, Shivram Singh Father Gajadhar Singh Gulab Singh Shyamsunder Singh Father Rampal Caste Thakur R/o Nadantola Land Owner Singh Mu. Leeladevi W/o Rampal Singh, Shivcharan, Father Rajbhan Singh Part 1/2 Tejbhan Singh Chhotelal Singh Vijay Bahadur Singh Father Javar Singh Caste Thakur R/o Nadantola Tehsil Amarpatan District Satna Land Owner

[F. No. NHAI/PIU/JBP/3D/Amarpatan/2012]

MAYA PRAKASHI, Dy. Secy.